

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2016 सत्र
दैनिक कार्य सूची
सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016 (आषाढ 27, 1938)
समय 11.00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, सदस्य विधान सभा,
- (2) श्री दलपत सिंह परस्ते, संसद सदस्य,
- (3) श्री यज्ञदत्त शर्मा, भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष,
- (4) डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डे, पूर्व संसद सदस्य,
- (5) श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह, पूर्व संसद सदस्य,
- (6) श्री रणबहादुर सिंह, पूर्व संसद सदस्य,
- (7) श्री सत्येन्द्र पाठक, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (8) श्री नरनारायण सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (9) श्री कामता प्रसाद कुशवाह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (10) श्री इब्राहिम कुरैशी, भूतपूर्व राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, तथा
- (11) डॉ. ए.के. पयासी, भूतपूर्व प्रमुख सचिव विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सिलीकोसिस नामक बीमारी से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, सदस्य, प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर उपभोक्ताओं से अनियमित विद्युत बिल की वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे को विधान सभा के जुलाई, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. राज्यमंत्री, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास का वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, दिनांक 26 फरवरी, 2016 को पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 84 (क्रमांक 1649) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2016

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.